

**M.Com. (Semester-I) (New) Examination
BANKING AND INSURANCE SERVICES**

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 80

Note :— All questions are compulsory.

SECTION—A (MCQ)

Write the answer of following questions by choosing correct options given below :— 1×20=20

1. A Commercial Bank discounting to its customers bills is called _____.
(a) Bank Rate (b) Interest Rate
(c) Market Rate (d) None of these
2. On _____ 14 Commercial Banks in India were nationalized.
(a) 19 July 1979 (b) 19 July 1969
(c) 18 July 1980 (d) None of these
3. If a bank allows a customer to withdraw more money than his deposit amount from his account it is called _____.
(a) Loan (b) Cash
(c) Cheque (d) Bank Overdraft
4. _____ has control over a Commercial Bank's credit creation.
(a) An Industrial Bank (b) A Co-operative Bank
(c) The Reserve Bank of India (d) None of these
5. The Central Bank is prohibited from putting a _____.
(a) Ban on the Interest paid on a customer's deposit
(b) Ban on individual transactions
(c) Ban on personal credit loan
(d) All of the above
6. The Reserve Bank of India was established in _____.
(a) 1947 (b) 1949
(c) 1950 (d) 1935
7. SBI Act was passed in Parliament in _____.
(a) 1935 (b) 1949
(c) 1955 (d) 1969
8. Co-operative Banks in India are registered under _____.
(a) Banking Laws (Co-operative Societies) Act, 1965
(b) Banking Regulation Act, 1949
(c) Companies Act, 1956
(d) None of these

9. When was Life Insurance sector nationalised ?
(a) 1834 (b) 1907
(c) 1938 (d) 1956
10. Which of the following is the only public sector company in the field of Life Insurance ?
(a) General Insurance Company (b) New India Assurance Company
(c) Oriental Insurance Company (d) Life Insurance Corporation of India
11. Which of the following is the regulator of Insurance Sector in India ?
(a) RBI (b) AMFI
(c) SEBI (d) IRDA
12. Which of the following are the principles of Insurance ?
(a) Insurable interest (b) Premium principle
(c) Indemnity principle (d) All of these
13. In Marine Insurance Policy Insurable interest must exist at the time of _____.
(a) Taking Policy (b) At the time of claim
(c) Both at time of policy and claim (d) None of these
14. Insurance of vehicle is compulsory at time of purchase is applicable to :
(a) Commercial vehicle only (b) Private vehicle
(c) Miscellaneous vehicles (d) All the above
15. The main feature of the National Agricultural Insurance Scheme is to Insure which of the following ?
(a) Life of farmer
(b) Animals that are used in agricultural activities
(c) Land and farmer
(d) None of these
16. Which of the following is not a function of General Insurance ?
(a) Cattle Insurance (b) Crop Insurance
(c) Fire Insurance (d) Medical Insurance
17. Which company owned sovereign guaranty from the Government of India ?
(a) LIC (b) SBI LIFE
(c) ICICI (d) BAJAJ
18. IFCI was established in _____.
(a) 1947 (b) 1948
(c) 1949 (d) 1946
19. IDBI serves as the _____ Institution for term finance to Industries.
(a) APEX (b) Local
(c) Regional (d) None of these

20. The principal objective to form ICICI was _____.
- (a) To create a development financial institution
 - (b) To create a financial institution for providing medium term and long term project financing
 - (c) To create Financial institution for providing medium term and long term project financing to Indian business.
 - (d) All of the above.

SECTION—B

1. (a) What is meant by E-Banking ? Explain the role of E-Banking in the development of Banking sector. 12

OR

- (b) What do you mean by N.P.A. ? Explain the provisions and process to determine the N.P.A. 12
2. (a) What do you mean by Rural Bank ? Explain the functions of Rural Banks and its role in the rural development. 12

OR

- (b) What do you mean by Reserve Bank of India ? Explain the Credit Control Policy of Reserve Bank of India. 12
3. (a) What is Privatisation of Insurance ? Discuss the socio-economic effects of privatisation of Insurance. 12

OR

- (b) Explain the procedure of settlement of claim of Life Insurance Policy in detail. 12
4. (a) What do you mean by Fire Insurance ? State the principles of Fire Insurance. Explain the formation of Fire Insurance Policy. 12

OR

- (b) Explain the concept of Livestock Insurance. State its importance and benefits. 12
5. (a) Explain the contribution of General Insurance in the Economic Development of India. 12

OR

- (b) Discuss the functions of International Bank for Reconstruction and Development (IBRD). Explain its role in Economic Development of India. 12

**M.Com. (Semester-I) (New) Examination
BANKING AND INSURANCE SERVICES**

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 80

(मराठी माध्यम)

नोट :— सर्व प्रश्न अनिवार्य आहेत.

विभाग—'अ' (MCQ)

प्रत्येक प्रश्नासमोर दिलेल्या पर्यायांमधून योग्य उत्तर लिहा :—

1×20=20

- व्यापारी अधिकोष आपल्या ग्राहकाची विपत्रे ज्या दशने वटवितो तो दर म्हणजे _____.
(अ) अधिकोषदर (ब) व्याजदर
(क) बाजार दर (ड) यापैकी नाही
- _____ रोजी भारतातील 14 मोठ्या व्यापारी अधिकोषांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.
(अ) 19 जुलै 1979 (ब) 19 जुलै 1969
(क) 18 जुलै 1980 (ड) यापैकी नाही
- ठेवीदाराच्या जेवढा रक्कम त्याच्या खात्यात जमा असते, त्यापेक्षा अधिक रक्कम अधिकोष त्यास देत असेल तर त्याला _____ म्हणतात.
(अ) कर्ज (ब) रोख प्रत्यय
(क) धनादेश (ड) अधिकोष अधिविकर्ष
- व्यापारी अधिकोषाच्या प्रत्यय निर्मितीवर नियंत्रण ठेवण्याच कार्य _____ अधिकोष करते.
(अ) औद्योगिक अधिकोष (ब) सहकारी अधिकोष
(क) रीझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (ड) यापैकी नाही
- केंद्रीय अधिकोषाची वार्जित कार्य आहे _____.
(अ) ग्राहकांच्या ठेवीवर व्याज देण्यावर बंदी
(ब) स्वतंत्र व्यवसाय करण्यास बंदी
(क) वैयक्तिक पतीवर (Credit) कर्ज देण्यास बंदी
(ड) वरीलपैकी सर्व
- भारतात केंद्रीय अधिकोषाची (RBI) स्थापना केव्हा करण्यात आली ?
(अ) 1947 (ब) 1949
(क) 1950 (ड) 1935
- _____ SBI कायदा संसदे मध्ये मंजूर करण्यात आला.
(अ) 1935 (ब) 1949
(क) 1955 (ड) 1969

8. सहकारी अधिकोष भारतात _____ या अंतर्गत नोदेणीकृत करण्यात आले.

- (अ) अधिकोषण कायदा (सहकारी संख्या) कायदा, 1965
- (ब) अधिकोषण नियमन कायदा, 1949
- (क) कंपनी कायदा, 1956
- (ड) वरीलपैकी नाही

9. जिवन विमा क्षेत्राचे राष्ट्रीयीकरण केव्हा झाले ?

- (अ) 1834
- (ब) 1907
- (क) 1938
- (ड) 1956

10. खालीलपैकी कोणती सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी जिवन विमा क्षेत्रात कार्यरत आहे ?

- (अ) सामान्य विमा कंपनी
- (ब) न्यु इंडीया हमी कंपनी
- (क) ओरीएंटल इन्शोरन्स कंपनी
- (ड) लाइफ इन्शोरन्स कोऑपरेशनस ऑफ इंडीया

11. खालीलपैकी कोण भारतातील विमा क्षेत्राला नियमन (regulation) करते _____

- (अ) RBI
- (ब) AMFI
- (क) SEBI
- (ड) IRDA

12. खालीलपैकी कोणती विमा तत्वे आहेत ?

- (अ) विमायोग्य हीत
- (ब) प्रव्याजी तत्व
- (क) नुकसान भरपाई तत्व
- (ड) यापैकी सर्व

13. सामुद्रीक विम्यात विमाहीत तत्व हे _____ असावे लागते.

- (अ) विमा पत्र घेतेवेळली
- (ब) दावा दाखल करतेवेळी
- (क) (अ) आणि (ब)
- (ड) यापैकी नाही

14. वाहन विमा _____ या वाहणाच्या संदर्भात खरेदी करतांना आवश्यक आहे.

- (अ) व्यावसायिक वाहनाना फक्त
- (ब) खाजगी वाहनाना
- (क) किरकोळ वाहनाना
- (ड) वरिल सर्व

15. खालीलपैकी कृषी विमा योजनेचे मुख्य वैशिष्ट्ये हे _____ विम्याचे आहे.

- (अ) शेतकऱ्याचे जिवनमान
- (ब) कृषी कार्यासाठी वापरली जाणारी जनावरे
- (क) जमीन आणि शेतकरी
- (ड) वरिलपैकी नाही

16. खालीलपैकी कोणते कार्यसामान्य विम्याचे नाही _____

- (अ) पशू विमा
- (ब) पिक विमा
- (क) अग्नी विमा
- (ड) वैद्यकिय विमा

17. भारत सरकारची सर्वाभौम हमी असलेली विमा कंपनी कोणती ?

- (अ) LIC
- (ब) SBI LIFE
- (क) ICICI
- (ड) BAJAJ INSURANCE

18. IFCI ची स्थापना _____ झाली.

(अ) 1947

(ब) 1948

(क) 1949

(ड) 1946

19. IDBI ही _____ संस्था म्हणून उद्योगांना मुदती वित्त पुरवठा करतो.

(अ) APEX (शिखर)

(ब) स्थानिक

(क) प्रादेशिक

(ड) यापैकी नाही

20. ICICI चे मुख्य उद्देश _____.

(अ) वित्तीय संख्यांचा विकास करणे

(ब) प्रकल्पना मध्यम व दीर्घ मुदतीचा वित्त पुरवठा करणे

(क) भारतीय उद्योगांना मध्यम व दीर्घ मुदतीचे प्रकल्प वित्त संस्थात्मक वित्त पुरवठा करणे

(ड) वरील पैकी सर्व

विभाग—'ब'

1. (अ) ई-बँकिंग म्हणजे काय ? बँकिंग क्षेत्राच्या विकासात ई-बँकिंगची भूमिका स्पष्ट करा.

12

किंवा

(ब) अनुत्पादक संपत्ती (N.P.A.) यापासून आपणास काय अर्थबोध होतो ? अनुत्पादक संपत्तीच्या संदर्भातील तरतूदी आणि अनुत्पादक संपत्ती निर्धारित करणारी प्रक्रिया स्पष्ट करा.

12

2. (अ) ग्रामीण बँकेपासून काय अर्थबोध होतो ? ग्रामीण बँकेची कार्ये आणि तिची ग्रामीण विकासातील भूमिका स्पष्ट करा.

12

किंवा

(ब) भारतीय रिझर्व्ह बँक या पासून आपणास अर्थबोध होतो ? भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे प्रत्यय-नियंत्रणाचे धोरण स्पष्ट करा.

12

3. (अ) विम्याचे खाजगीकरण म्हणजे काय ? विमा खाजगीकरणाचे सामाजिक व आर्थिक परिणाम स्पष्ट करा.

12

किंवा

(ब) जीवन विमापत्राचे दावे निकालात काढण्याची पद्धती सविस्तर स्पष्ट करा.

12

4. (अ) अग्नि विम्यापासून आपणास काय अर्थबोध होतो ? अग्नि विम्याचे तत्वे सांगा. अग्नि विमा पत्र अस्तित्वात येण्याची प्रक्रिया स्पष्ट करा.

12

किंवा

(ब) पशुधन विम्याची संकल्पना स्पष्ट करा. तिचे महत्व व फायदे विशद करा.

12

5. (अ) भारताच्या आर्थिक विकासात सामान्य विम्याचे योगदान स्पष्ट करा.

12

किंवा

(ब) आंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण व विकास बँकेचे (IBRD) कार्याची चर्चा करा. भारताच्या आर्थिक विकासात तिची भूमिका स्पष्ट करा.

12

**M.Com. (Semester-I) (New) Examination
BANKING AND INSURANCE SERVICES**

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 80

(हिन्दी माध्यम)

नोट :— सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

विभाग—'अ' (MCQ)

निम्नलिखित के लिये उचित विकल्प चुनिये :—

1×20=20

1. वाणिज्य बैंक अपने ग्राहकों का विपत्र जिस दर से आदान-प्रदान करता है वह _____ है।
(अ) बैंक दर (ब) ब्याज दर
(क) बाजार दर (ड) इनमें से नहीं
2. _____ को भारत में 14 बड़े व्यापारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।
(अ) 19 जुलाई 1979 (ब) 19 जुलाई 1969
(क) 18 जुलाई 1980 (ड) इनमें से नहीं
3. जमाकर्ता की जितनी राशि उनके खाते में जमा होती है उससे ज्यादा राशि बैंक उनको देती है तो उसे _____ कहा जाता है।
(अ) साख (ब) नगद
(क) धनादेश (ड) अधिकोष अधिकर्ष
4. व्यापारी बैंकों के साख निर्माण पर नियंत्रण रखने का कार्य _____ बैंक करती है।
(अ) औद्योगिक बैंक (ब) सहकारी बैंक
(क) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (ड) इनमें से कोई नहीं
5. केन्द्रीय बैंक का यह वर्जित कार्य है _____।
(अ) ग्राहकों के जमा राशि पर ब्याज का निर्बंध
(ब) स्वतंत्र लेन-देन करने पर निर्बंध
(क) व्यक्तिगत स्तर पर साख देने पर निर्बंध
(ड) इनमें से सभी
6. भारत में केन्द्रीय बैंक (RBI) की स्थापना कब हुई ?
(अ) 1947 (ब) 1949
(क) 1950 (ड) 1935
7. SBI कानून संसद में मंजूर किया गया _____।
(अ) 1935 (ब) 1949
(क) 1955 (ड) 1969

8. सहकारी बैंक भारत में _____ किसके नियंत्रण में पंजीबद्ध की गई।
(अ) बैंकिंग कानून (सहकारी संस्था) अधिनियम, 1965
(ब) बैंकिंग अधिनियम, 1949
(क) कंपनी अधिनियम, 1956
(ड) उपरोक्त नहीं
9. जीवन बीमा क्षेत्र का _____ राष्ट्रीयकरण किया गया।
(अ) 1834 (ब) 1907
(क) 1938 (ड) 1956
10. निम्नलिखित कौनसी कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र में जीवन बीमा क्षेत्र में कार्यरत है ?
(अ) सामान्य बीमा कंपनी (ब) न्यू इण्डिया इन्शोरन्स कंपनी
(क) ओरीएंटल इन्शोरन्स कंपनी (ड) लाइफ इन्शोरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया
11. निम्न दिये गये पर्याय में कौनसे भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन करते हैं ?
(अ) RBI (ब) AMFI
(क) SEBI (ड) IRDA
12. निम्न दिये गये कौनसे तत्व बीमा के हैं ?
(अ) बीमा योग्य हित (ब) प्रव्याजी तत्व
(क) नुकसान भरपाई तत्व (ड) उपरोक्त सभी
13. सामुद्रिक बीमा में बीमाहित तत्वों का होना _____ जरूरी होता है।
(अ) बीमा पत्र लेते समय (ब) दावा दाखिल करते समय
(क) (अ) एवं (ब) (ड) उपरोक्त में से नहीं
14. वाहन बीमा _____ यह वाहनों के संदर्भ में खरेदी के समय पर आवश्यक है।
(अ) व्यावसायी वाहन को (ब) निजी वाहन को
(क) खुदरा वाहन को (ड) उपरोक्त सभी
15. राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का मुख्य विशेषता _____ यह है।
(अ) किसान आयुर्मान (ब) कृषि कार्य के लिये उपयोग में आनेवाले पशु
(क) जमीन एवं किसान (ड) उपरोक्त में से नहीं
16. निम्नलिखित कार्य सामान्य बीमा का नहीं है।
(अ) पशु बीमा (ब) फसल बीमा
(क) अग्नि बीमा (ड) स्वास्थ्य बीमा
17. भारत सरकार की सार्वभौम हमी होनेवाली बीमा कंपनी कौनसी है ?
(अ) LIC (ब) SBI LIFE
(क) ICICI (ड) BAJAJ INSURANCE

18. IFCI स्थापना वर्ष _____ ।

(अ) 1947

(ब) 1948

(क) 1949

(ड) 1946

19. IDBI _____ संस्था हेतु उद्योग को मुदती वित्त पूर्ति करती है।

(अ) APEX

(ब) स्थानिक

(क) प्रादेशिक

(ड) उपरोक्त नहीं

20. ICICI का मुख्य उद्देश्य _____ ।

(अ) वित्तीय संस्था का विकास करना

(ब) प्रकल्प को मध्यम एवं दीर्घ मुदत का वित्त पूर्ति करना

(क) भारत के उद्योगों को मध्यम एवं दीर्घ मुदत का प्रकल्प वित्त एवं संस्थात्मक वित्त पुरवठा करना

(ड) उपरोक्त सभी

विभाग—'ब'

1. (अ) ई-बैंकिंग याने क्या ? बैंकिंग क्षेत्र के विकास में ई-बैंकिंग की भूमिका स्पष्ट कीजिये। 12

अथवा

(ब) अनुत्पादक संपत्ति (N.P.A.) से आप क्या समझते हैं ? इसके संदर्भ में प्रावधान एवं अनुत्पादक संपत्ति निर्धारित करनेवाली प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिये। 12

2. (अ) ग्रामीण बैंक से आपको क्या अर्थबोध होता है ? ग्रामीण बैंक के कार्य एवं उसकी ग्रामीण विकास में भूमिका स्पष्ट कीजिये। 12

अथवा

(ब) भारतीय रिज़र्व बैंक से आपको क्या अर्थबोध होता है ? भारतीय रिज़र्व बैंक के साख नियंत्रण नीति को विशद कीजिये। 12

3. (अ) बीमा के निजीकरण से क्या तात्पर्य है ? बीमा निजीकरण के सामाजिक आर्थिक परिणामों की चर्चा कीजिये। 12

अथवा

(ब) जीवन बीमा में दावों का निपटारा (Settlement) करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिये। 12

4. (अ) अग्नि बीमा से आप क्या समझते हैं ? अग्नि बीमा के तत्व लिखिये। अग्नि बीमा पत्र निर्मिती स्पष्ट करें। 12

अथवा

(ब) पशुधन बीमा की संकल्पना स्पष्ट कीजिये। इसके महत्व एवम् लाभ विशद कीजिये। 12

5. (अ) भारत के आर्थिक विकास में सामान्य बीमा (General Insurance) का योगदान स्पष्ट कीजिये। 12

अथवा

(ब) अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (IBRD) के कार्य की चर्चा कीजिये। भारत के आर्थिक विकास में उसकी भूमिका स्पष्ट कीजिये। 12

